





# LEGAL LANGUAGE AND LEGAL WRITING WORKBOOK


: Write the meaning of these legal terms:


<b>WORD</b>	<b>Meaning</b>
<b>Plaintiff</b> (वादी)	
<b>Defendant</b> (प्रतिवादी)	
<b>Petitioner</b> (याचिकाकर्ता)	
<b>Respondent</b> (प्रतिवादी)	
<b>Affidavit</b> (शपथ पत्र)	


<b>Amicus Curiae</b> (अमिकस क्यूरी)	
<b>Jurisdiction</b> (अधिकार क्षेत्र)	
<b>Injunction</b> (निषेधाज्ञा)	
<b>Summons</b> (समन)	
<b>Pleadings</b> (दलीलें)	
<b>Bench</b> (पीठ)	


<b>Bar (बार)</b>	
<b>Judgment (निर्णय)</b>	
<b>Order (आदेश)</b>	 <b>MATS UNIVERSITY</b>
<b>Decree (डिक्री)</b>	
<b>Adjournment (स्थगन)</b>	

<b>Contempt of Court</b> (अदालत की अवमानना)	
<b>Bail (जमानत)</b>	
<b>CrossExamination (जिरह)</b>	
<b>Habeas Corpus</b> (हेबियस कॉर्पस)	
<b>Fundamental Rights</b> (मौलिक अधिकार)	


<b>Directive Principles</b> (नीति निर्देशक तत्व)	
<b>Writ (रिट)</b>	
<b>Public Interest Litigation (PIL)</b> (जनहित याचिका)	
<b>Ordinance</b> (अध्यादेश)	
<b>Act</b> (अधिनियम)	

<b>Amendment</b> (संशोधन)	
<b>Statute</b> (विधान)	
<b>Doctrine of Basic Structure</b> (मूलभूत ढांचे का सिद्धांत)	
<b>Judicial Review</b> (न्यायिक समीक्षा)	
<b>Contract</b> (अनुबंध)	

<b>Offer</b> (प्रस्ताव)	
<b>Acceptance</b> (स्वीकृति)	
<b>Consideration</b> (प्रतिफल)	
<b>Breach of Contract</b> (अनुबंध का उल्लंघन)	
<b>Indemnity</b> (प्रतिपूर्ति)	
<b>Arbitration</b> (मध्यस्थता)	

<b>Force Majeure</b> (दुर्लभ परिस्थितियाँ)	
<b>Void Contract</b> (शून्य अनुबंध)	
<b>Warranty</b> (वारंटी)	
<b>Cognizable Offence</b> (संज्ञेय अपराध)	 <b>MATS UNIVERSITY</b>
<b>NonCognizable Offence</b> (असंज्ञेय अपराध)	
<b>FIR (First Information Report)</b> (प्रथम सूचना रिपोर्ट)	



<b>Charge Sheet</b> (आरोप पत्र)	
<b>Bailable Offence</b> (जमानती अपराध)	
<b>NonBailable Offence</b> (गैरजमानती अपराध)	
<b>Remand</b> (रिमांड)	 <b>MATS</b> UNIVERSITY
<b>Acquittal</b> (निर्विकल्प)	
<b>Conviction</b> (दोषसिद्धि)	
<b>Sentence</b> (सजा)	

: Based on the synopsis given below Write an essay in 300 words:

निबंध लिखें

## Synopsis: Law as an Instrument for Social Change

### Introduction

Law is a powerful tool that has been instrumental in shaping society, retaining justice, and pursuing social change. Legal systems have historically influenced societal trends, molded cultural boundaries, and promoted social cohesion. Beyond governance, law is crucial for dispensing social justice, protecting individual rights, and ensuring equality. The dynamic relationship between law and society is central to jurisprudence, reflecting and driving societal changes.

**Hindi:** कानून एक शक्तिशाली कौशल है जो समाज को आकार देने, न्याय बनाए रखने, और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानूनी प्रणालियों ने इतिहास से समाजों की प्रवृत्तियों को रूप दीया, सांस्कृतिक सीमाओं को प्रभावित किया, प्रगति को प्रभावित किया, और सामाजिक एकता को रूप दीया। कानून और समाज के बीच यह गतिशील संबंध है जो न्याय के क्षेत्र को चित्रित करता है और समाज के परिवर्तनों के मामले में चालकी का कार्य करती है।

---

### The Role of Law in Society (समाज में कानून की भूमिका)

- 1. Regulation of Behavior (व्यवहार का नियमन):**
  - Defines acceptable societal behavior.
  - Prevents disorder through rules and sanctions.
- 2. Protection of Rights and Liberties (अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा):**
  - Secures fundamental rights, like equality and freedom.
- 3. Social Justice (सामाजिक न्याय):**
  - Addresses inequalities, safeguarding marginalized communities.
- 4. Causing Social Change (सामाजिक परिवर्तन):**
  - Challenges outdated practices, e.g., abolition of untouchability.
- 5. Conflict Resolution (विवाद निवारण):**
  - Provides structured methods like courts and arbitration.
- 6. Economic Regulation (आर्थिक विनियमन):**
  - Ensures fair business practices, protecting consumers and businesses.

### **Law as a Driver of Social Change (कानून एक सामाजिक परिवर्तन का चालक)**

1. **Legal Reforms (कानूनी सुधार):**
    - Adaptation of laws to meet societal needs, e.g., GST in India.
  2. **Judicial Activism (न्यायिक सक्रियता):**
    - Expands rights through judicial interpretation.
  3. **Public Interest Litigation (PIL) (जनहित याचिका):**
    - Enables legal redress for public causes.
  4. **Legislation in Response to Social Movements (सामाजिक आंदोलनों के जवाब में विधायी परिवर्तन):**
    - Examples include laws on domestic violence and marital rape.
- 

### **Jurisprudential Perspectives on Law and Social Change (न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोण से कानून और सामाजिक परिवर्तन)**

1. **Sociological Jurisprudence (सामाजिक न्यायशास्त्र):**
    - Views law as a social institution responsive to societal changes.
  2. **Legal Realism (कानूनी यथार्थवाद):**
    - Recognizes law's practical application in shaping societal norms.
  3. **Critical Legal Studies (आलोचनात्मक कानूनी अध्ययन):**
    - Questions traditional doctrines and advocates equality.
  4. **Law and Morality (कानून और नैतिकता):**
    - Explores the interplay between legal rules and moral values.
-

**: A list of maxims/legal terms is given below learn their meaning:**

नीचे दिए गए कानूनी शब्दों का अर्थ याद रखें

- |                           |                                |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Legal Term             | 8. Novus actus                 | 16. Expost facto               |
| 2. Abinitio               | 9. Res Ipsa Loquitur           | 17. Exparte                    |
| 3. Ad hoc                 | 10. Restitution in<br>integrum | 18. Exgratia                   |
| 4. Adinterim              | 11. Caveat emptor              | 19. Trespass abinitio          |
| 5. As is                  | 12. Resjudicata                | 20. Sine die                   |
| 6. Injuria sine<br>Damnum | 13. Prima facie                | 21. Noncompos<br>mentis        |
| 7. Damnum sine<br>injuria | 14. Malafides                  | 22. Nemo dat quod<br>non habet |
|                           | 15. Bonafides                  |                                |

**: Write full form: Legal Abbreviations**

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. AIR                   | 11. O.L.R.              |
| 2. S.C.C.                | 12. Cr. L.J.            |
| 3. M.P.L.J.              | 13. All L.J.            |
| 4. J.L.J.                | 14. I.B. Rev.           |
| 5. M.P.W.N.              | 15. I.L.R.              |
| 6. Cal. L.R.             | 16. A.I. Cr. C.         |
| 7. S.C.R.                | 17. S.C.J.              |
| 8. S.C.W.R.              | 18. I.T.R.              |
| 9. All India Law Journal | 19. Bombay Law Reporter |
| 10. Cal. L.J.            | 20. An. L.T.            |

**PRACTICE AGAIN**

Cal. L.J.

M.P.W.N.

I.B. Rev.

S.C.R.

O.L.R.

S.C.C.

I.L.R.

Cr. L.J.

All India Law Journal

S.C.J.

AIR

Bombay Law Reporter

M.P.L.J.

An. L.T.

J.L.J.

A.I. Cr. C.

All L.J.

Cal. L.R.

I.T.R.

S.C.W.R.



MATS  
UNIVERSITY

## : Practice Writing Legal Citations

### Objective:

To help you practice writing case citations in the correct format as per Indian legal citation standards.

### Instructions:

Below are important Indian cases with raw information. You are required to write the citation for each case in the correct format, based on the provided details.

### Case Details:

1. **Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)**

- **Full Case Name:** Kesavananda Bharati Sripadagalvaru v. State of Kerala
- **Court:** Supreme Court of India
- **Year:** 1973
- **Reporter:** AIR (All India Reporter)
- **Page Number:** 1461
- **Issue:** This case is known for establishing the "Basic Structure Doctrine" of the Indian Constitution.

2. **Maneka Gandhi v. Union of India (1978)**

- **Full Case Name:** Maneka Gandhi v. Union of India
- **Court:** Supreme Court of India
- **Year:** 1978
- **Reporter:** AIR
- **Page Number:** 597
- **Issue:** The Supreme Court's interpretation of the right to

personal liberty under Article 21 of the Constitution.

3. **Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980)**

- **Full Case Name:** Minerva Mills Ltd. v. Union of India
- **Court:** Supreme Court of India
- **Year:** 1980
- **Reporter:** AIR
- **Page Number:** 1789
- **Issue:** This case reinforced the "Basic Structure Doctrine" and emphasized the balance between Fundamental Rights and Directive Principles.

4. **Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985)**

- **Full Case Name:** Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum
- **Court:** Supreme Court of India
- **Year:** 1985
- **Reporter:** AIR
- **Page Number:** 945

- **Issue:** Landmark judgment on maintenance rights for divorced Muslim women under Section 125 of CrPC.
5. **S.R. Bommai v. Union of India (1994)**
- **Full Case Name:** S.R. Bommai v. Union of India
  - **Court:** Supreme Court of India
  - **Year:** 1994
  - **Reporter:** AIR
  - **Page Number:** 1918
  - **Issue:** Defined the limits of the imposition of President's Rule under Article 356 of the Constitution.
6. **Vishaka v. State of Rajasthan (1997)**
- **Full Case Name:** Vishaka and others v. State of Rajasthan
  - **Court:** Supreme Court of India
  - **Year:** 1997
  - **Reporter:** AIR
  - **Page Number:** 3011
  - **Issue:** This case laid down guidelines for preventing sexual harassment at the workplace.
7. **Aruna Shanbaug v. Union of India (2011)**
- **Full Case Name:** Aruna Shanbaug v. Union of India
  - **Court:** Supreme Court of India
  - **Year:** 2011
  - **Reporter:** AIR
  - **Page Number:** 1290
  - **Issue:** The Supreme Court allowed passive euthanasia under strict guidelines in this case.
8. **Navtej Singh Johar v. Union of India (2018)**
- **Full Case Name:** Navtej Singh Johar v. Union of India
  - **Court:** Supreme Court of India
  - **Year:** 2018
  - **Reporter:** AIR
  - **Page Number:** 4321
  - **Issue:** The Supreme Court decriminalized Section 377 of the Indian Penal Code, legalizing same-sex relations between consenting adults.
9. **M.C. Mehta v. Union of India (1987)**
- **Full Case Name:** M.C. Mehta v. Union of India
  - **Court:** Supreme Court of India
  - **Year:** 1987
  - **Reporter:** AIR
  - **Page Number:** 1086
  - **Issue:** Known as the "Ganga Pollution Case," this case focused on environmental law and set guidelines for the protection of the Ganga River.
10. **Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala (2018)**
- **Full Case Name:** Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala
  - **Court:** Supreme Court of India
  - **Year:** 2018
  - **Reporter:** AIR
  - **Page Number:** 3783
  - **Issue:** This case ruled in favor of allowing women of all ages to enter the Sabarimala temple, striking down the age-based restriction

**Example: Case Name:** Kesavananda Bharati v. State of Kerala **Correct Citation Format:** *Kesavananda Bharati v. State of Kerala*, AIR 1973 SC 1461

WRITE A Essay/Paragraphs on the following topics: (100-150 words)

A. Fundamental Rights

- a. **Synopsis:** Fundamental Rights are basic human rights guaranteed by the Constitution of India. They ensure that citizens enjoy freedom, equality, and justice. These rights are enforceable by the courts, and any violation can lead to legal recourse. They are categorized under six fundamental rights: Right to Equality, Right to Freedom, Right against Exploitation, Right to Freedom of Religion, Cultural and Educational Rights, and Right to Constitutional Remedies.
- b. |— Right to Equality
- c. |— Right to Freedom
- d. |— Right against Exploitation
- e. |— Right to Freedom of Religion
- f. |— Cultural and Educational Rights
- g. |— Right to Constitutional Remedies

B. Theory of punishment

- a. **Synopsis:** The theory of punishment in criminal law explains the rationale behind punishing offenders. It includes various types:
- b. Theory of Punishment
- c. |— Retributive Theory
- d. |— Deterrent Theory
- e. |— Preventive Theory
- f. |— Reformatory Theory

C. Hohfeld's theory

- a. **Synopsis:** Hohfeld's theory of legal rights provides a clear framework for understanding legal rights and duties. It divides legal rights into four categories:
- b. Hohfeld's Theory
- c. |— Rights (Claim-rights)
- d. |— Privileges (No-rights)
- e. |— Powers
- f. |— Immunities

D. Breach of Contract



- a. |— Minor Breach
  - b. |— Material Breach
  - c. |— Anticipatory Breach
- E. Master-servant relationship
- a. |— Employer (Master)
  - b. |— Employee (Servant)
  - c. |— Employer's Duties
  - d. |— Employee's Duties
- F. Essentials of Contract
- a. |— Offer and Acceptance
  - b. |— Mutual Consent
  - c. |— Competent Parties
  - d. |— Lawful Object
  - e. |— Consideration
  - f. |— Free Will
- G. Golden Triangle in Indian Constitution
- a. |— Article 14 (Right to Equality)
  - b. |— Article 19 (Right to Freedom)
  - c. |— Article 21 (Right to Life)
- H. Environment and law
- a. Environment and Law
  - b. |— Pollution Control
  - c. |— Waste Management
  - d. |— Biodiversity Conservation
  - e. |— Climate Change
- I. Domestic Violence
- a. |— Physical Abuse
  - b. |— Emotional Abuse
  - c. |— Psychological Abuse
  - d. |— Legal Protection
- J. Sexual Harassment at workplace
- a. |— Physical Harassment
  - b. |— Verbal Harassment
  - c. |— Non-verbal Harassment
  - d. |— Legal Protection (2013 Act)

K. Strict & Absolute Liability

- a.  Strict Liability
- b.  Absolute Liability

L. Balancing National Security & Human Rights

- a.  National Security Laws
- b.  Restrictions on Civil Liberties
- c.  Protecting Human Rights

M. Medical Negligence

- a.  Failure to Diagnose
- b.  Improper Treatment
- c.  Errors in Surgery



**MATS**  
**UNIVERSITY**

## FRAME the followings:

### Questions for Drafting a Defamation Notice:

- Question 1:**

Draft a defamation notice on behalf of your client who has been defamed by a false statement made by a former colleague on a public platform. The statement claims that your client is involved in criminal activities, which is damaging to their reputation.
- Question 2:**

Prepare a defamation notice for a public figure who has been defamed in a widely circulated newspaper article, accusing them of financial misconduct without any proof. Include a demand for an apology and compensation for damage to their reputation.
- Question 3:**

Your client, a businessman, has been falsely accused by a competitor of engaging in unethical business practices, and this accusation has spread through online social media platforms. Draft a defamation notice requesting the competitor to cease and desist, and seek damages.
- Question 4:**

Draft a defamation notice for a teacher who has been accused by a student of immoral conduct in front of the school administration. The teacher seeks an apology and clarification, as well as a retraction of the statement.
- Question 5:**

Your client has been defamed by a colleague who falsely spread rumors about their professional competence in an office meeting. The false information is damaging your client's career prospects. Draft a defamation notice with a request for an immediate retraction and compensation for mental anguish.

**प्रश्न 1:**

अपने ग्राहक की ओर से एक मानहानि नोटिस तैयार करें, जिसे एक पूर्व सहयोगी ने सार्वजनिक मंच पर एक झूठे बयान के द्वारा अपमानित किया है। उक्त बयान में कहा गया है कि आपका ग्राहक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, जो उनके प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा रहा है।

**प्रश्न 2:**

एक सार्वजनिक व्यक्ति के लिए एक मानहानि नोटिस तैयार करें, जिसे एक व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रिका में वित्तीय दुराचार का झूठा आरोप लगाया गया है, बिना किसी प्रमाण के। इसमें माफी और उनके प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करें।

**प्रश्न 3:**

आपके ग्राहक, जो एक व्यापारी हैं, को उनके प्रतिस्पर्धी द्वारा अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं में संलिप्त होने का झूठा आरोप लगाया गया है,

**FRAME DIVORCE PETITION**

**1. Question 1:**

Draft a divorce petition on behalf of your client, a wife who has been subjected to constant mental cruelty and harassment by her husband. The husband has refused to provide financial support and has engaged in verbal abuse. The wife seeks dissolution of marriage under

और यह आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल चुका है। एक मानहानि नोटिस तैयार करें, जिसमें प्रतिस्पर्धी से इसे रोकने और क्षति की मांग की जाए।

**प्रश्न 4:**

एक शिक्षक के लिए मानहानि नोटिस तैयार करें, जिसे एक छात्र द्वारा स्कूल प्रशासन के सामने अमानवीय आचरण का आरोप लगाया गया है। शिक्षक माफी, स्पष्टीकरण और उक्त बयान का प्रतिवेदन चाहते हैं।

**प्रश्न 5:**

आपके ग्राहक को एक सहयोगी द्वारा उनके पेशेवर कौशल को लेकर कार्यालय की बैठक में झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं। यह झूठी जानकारी आपके ग्राहक के करियर को नुकसान पहुँचा रही है। एक मानहानि नोटिस तैयार करें, जिसमें तुरंत प्रतिवेदन की मांग की जाए और मानसिक कष्ट के लिए मुआवजा की मांग की जाए

Section 13(1)(ia) of the Hindu Marriage Act, 1955.

**2. Question 2:**

Prepare a divorce petition for your client, a husband who has been living separately from his wife for over three years due to her infidelity. The husband wishes to file for divorce under Section 13(1)(ii) of the Hindu Marriage Act, 1955, on the grounds of adultery.

---

## In Hindi:

1. प्रश्न 1:

अपने ग्राहक, एक पत्नी की ओर से एक तलाक याचिका तैयार करें, जिसे उसके पति द्वारा निरंतर मानसिक क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। पति ने वित्तीय सहायता देने से इंकार कर दिया है और मौखिक रूप से अपमानित किया है। पत्नी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत विवाह के विघटन की मांग करती है।

2. प्रश्न 2:

अपने ग्राहक, एक पति के लिए तलाक याचिका तैयार करें, जो अपनी पत्नी से तीन साल से अलग रह रहा है क्योंकि पत्नी ने व्यभिचार किया है। पति हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ii) के तहत व्यभिचार के आधार पर तलाक की याचिका दायर करना चाहता है।

## TRANSLATION WORK

### Question 1:

Translate the following passage into Hindi:

"The Constitution of India guarantees several fundamental rights to every citizen, which include the right to equality, right to freedom, right against exploitation, and the right to freedom of religion. Any violation of these fundamental rights can be challenged in the courts, and the judiciary has the power of judicial review to ensure that laws passed by the legislature are in line with the Constitution."

### Question 2:

Translate the following passage into Hindi:

"A contract is an agreement between two or more parties that is legally enforceable. It involves three essential elements: an offer, an acceptance, and consideration. If one party breaches the contract, the other party can seek legal remedies such as damages, specific performance, or rescission of the contract. The law ensures that agreements are honored and any failure to comply with the terms can lead to legal consequences."

**Question 3:**

Translate the following passage into Hindi:

"The Indian Penal Code (IPC) is the primary criminal code in India, which defines various offenses and prescribes punishments for them. It deals with both minor and serious offenses, ranging from theft, cheating, and assault, to murder and terrorism. The IPC aims to maintain law and order by prescribing punishments that are proportionate to the severity of the crime committed."

**Question 4:**

Translate the following passage into Hindi:

"The right to privacy is recognized as a fundamental right under the Indian Constitution. It was first recognized by the Supreme Court in the landmark case of Kharak Singh v. State of Uttar Pradesh in 1954. Later, in 2017, the Supreme Court expanded the scope of this right, declaring it to be an essential part of the right to life and personal liberty under Article 21 of the Constitution."

**Question 5:**

Translate the following passage into Hindi:

"Habeas corpus is a legal remedy used to challenge unlawful detention or

imprisonment. The writ of habeas corpus is issued by a court to order the person detaining another to produce the detainee before the court. This writ ensures that no person is illegally deprived of their liberty, and it protects individual freedom against unlawful and arbitrary detention by the state or other authorities."

**Question 6:**

Translate the following passage into Hindi:

"The right to education is a fundamental right under Article 21-A of the Indian Constitution, which guarantees free and compulsory education to all children between the ages of 6 and 14. This right ensures that every child in India, regardless of their background, has access to education, and it aims to eliminate barriers to education, such as poverty and social inequality, to create a more educated society."

**Question 7:**

Translate the following passage into Hindi:

"The Constitution of India establishes the principle of the separation of powers between the executive, legislature, and judiciary. This separation is vital to ensure that no one branch of government becomes too

powerful. The legislature makes the laws, the executive enforces them, and the judiciary interprets and applies the laws. This system of checks and balances is essential to maintain democratic governance and protect individual freedoms."

**Question 8:**

Translate the following passage into Hindi:

"In criminal law, the burden of proof lies on the prosecution. It must prove the guilt of the accused beyond a reasonable doubt, meaning that there must be enough evidence to convince the court that the accused committed the crime. If the prosecution fails to meet this burden, the accused cannot be convicted, and they will be acquitted. The principle of 'innocent until proven guilty' is a cornerstone of the criminal justice system."

**Question 9:**

Translate the following passage into Hindi:

"A power of attorney is a legal document that authorizes one person, known as the agent, to act on behalf of another person, called the principal, in legal, financial, or personal matters. This document grants the agent the authority to make decisions, sign contracts, and perform other s as

specified by the principal. The power of attorney can be either general or specific, depending on the scope of authority granted."

**Question 10:**

Translate the following passage into Hindi:

"The legal system in India provides various methods of dispute resolution, including litigation, arbitration, and mediation. Litigation involves going to court to resolve a dispute, while arbitration is a process where an independent third party resolves the issue outside the courtroom. Mediation, on the other hand, is a process in which a neutral mediator helps the parties reach a settlement. These methods aim to provide a fair, timely, and cost-effective resolution to legal disputes."

**Question 11:** "न्यायसंगत सुनवाई का अधिकार लोकतांत्रिक समाज में न्याय का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को उन पर लगाए गए किसी भी आरोप या आरोपों के खिलाफ अपनी रक्षा करने का एक निष्पक्ष अवसर दिया जाए। न्यायसंगत सुनवाई का अधिकार इसमें आरोपों की सूचना मिलने का अधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार, और अपनी रक्षा में साक्ष्य और गवाह पेश करने का अधिकार शामिल है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि सुनवाई निष्पक्ष रूप से की जाए,

जिसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधीश हो। भारत में न्यायसंगत सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दिया गया है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार का उल्लंघन अदालत में चुनौती दी जा सकती है, और जिन व्यक्तियों को न्यायसंगत सुनवाई से वंचित किया गया है, वे पुनः सुनवाई या मुआवजे जैसे उपायों की मांग कर सकते हैं।"

**Question 12:**"भारतीय कानूनी प्रणाली न्याय, निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक सामान्य कानून प्रणाली है, जो भारतीय संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करती है, जो भूमि का सर्वोच्च कानून है। भारत में न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। न्यायालयों के पास संविधान और कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार है,

और उनके निर्णय सभी नागरिकों और संस्थाओं पर बाध्यकारी होते हैं। कानूनी प्रणाली में वैकल्पिक विवाद समाधान के विभिन्न रूपों का भी प्रावधान है, जैसे कि मध्यस्थता और सुलह, ताकि न्यायालयों पर दबाव कम किया जा सके और विवादों के समाधान के लिए तेज़ और कम महंगे तरीके प्रदान किए जा सकें। भारत में कानूनी पेशा अत्यधिक सम्मानित है, और कानूनी पेशेवरों से उच्चतम आचार संहिता और ईमानदारी का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।"

## TASK: CASE ANALYSIS

### (Case Analysis Format)

#### Case Citation

- Full name of the case
- Citation (Year, Court, Case Number)
- Relevant Legal Provisions

#### Facts of the Case

- Concise presentation of the facts



- Background leading to the legal dispute
- Key points and any significant events or actions that led to the case

### **Issues Involved**

- Clear identification of the legal issues that the court had to resolve
- Distinguish between the factual issues and legal questions

### **Arguments of the Parties**

- Arguments presented by the petitioner/plaintiff
- Arguments presented by the respondent/defendant
- Key legal principles invoked by both sides

### **Key Reason for Judgment**

- Summary of the court's decision
- The reasoning behind the judgment (analysis of the judicial thought process)
- Discussion on how the court interpreted relevant statutes, case law, and legal principles

### **Ratio Decidendi**

- The ratio or legal principle(s) laid down by the court
- Explanation of how this ratio applies to future cases
- Comparative analysis with previous decisions (if applicable)

### **Conclusion and Critique**

- Overall analysis of the case and its impact on Indian law
- Personal critique on whether the decision was correct, considering judicial reasoning.

### **केस संदर्भ (Case Citation)**

- केस का पूरा नाम
- संदर्भ (वर्ष, न्यायालय, केस संख्या)
- संबंधित कानूनी प्रावधान

## 2. मामले के तथ्य (Facts of the Case)

- तथ्य का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण
- कानूनी विवाद में आने से पहले की पृष्ठभूमि
- मामले से जुड़े मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण घटनाएँ या क्रियाएँ जिनके कारण मामला उठाया गया

## 3. मुद्दे (Issues Involved)

- न्यायालय को जो कानूनी मुद्दे सुलझाने थे, उनका स्पष्ट पहचान
- तथ्यों के मुद्दों और कानूनी सवालों में अंतर करना

## 4. पक्षों के तर्क (Arguments of the Parties)

- याचिकाकर्ता/वादी द्वारा प्रस्तुत तर्क
- प्रतिवादी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क
- दोनों पक्षों द्वारा उद्घाटित किए गए प्रमुख कानूनी सिद्धांत

## 5. फैसले के कारण (Key Reason for Judgment)

- न्यायालय के फैसले का सारांश
- फैसले के पीछे का तर्क (न्यायिक सोच की विश्लेषण)
- न्यायालय ने संबंधित कानून, पूर्व मामले, और कानूनी सिद्धांतों को कैसे व्याख्यायित किया

## 6. निर्णय का अनुप्रयोग (Ratio Decidendi)

- न्यायालय द्वारा तय किया गया कानूनी सिद्धांत (Ratio Decidendi)
- इस निर्णय का भविष्य में अन्य मामलों में कैसे उपयोग किया जा सकता है
- पिछले निर्णयों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण (यदि लागू हो)

## 7. निष्कर्ष और आलोचना (Conclusion and Critique)

- केस का समग्र विश्लेषण और भारतीय कानून पर इसका प्रभाव
- न्यायिक तर्क के आधार पर इस निर्णय की आलोचना करना

## CASES:

M.C.Mehta Versus. Union of India.AIR.1978.S.C.597.

Menaka Gandhi Versus. Union of India. AIR 1978 SC 597.

**Vishaka & Others Versus State of Rajasthan and others. AIR 1997.S.C.2011.**

**Dillip ku. Basu Versus, State of west Bengal.AIR.1997.Sow.233.**

**ALL THE BEST**

